



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2006/शनिवार माघ, 9—माघ 15, 1927
No. 5] NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2006/SATURDAY, MAGHA 9—MAGHA 15, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 24.—यतः मंत्रिमंडल सचिवालय (राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता) में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी' और अवर श्रेणी लिपिक-सह-रोकड़िया के पदों को डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी' और अवर श्रेणी लिपिक-सह-रोकड़िया के ग्रेडों में संवर्गित कर दिया गया है और ये अब, क्रमशः मंत्रिमंडल सचिवालय एवं गृह मंत्रालय के संवर्गों में शामिल हैं।

2. अतः, अब, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा, सा. का. नि. सं. 301, दिनांक 12 अगस्त, 2003 (पृष्ठ 1903 से 1908) द्वारा भारत के राजपत्र, दिनांक 24-30 अगस्त, 2003, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में यथाप्रकाशित, उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति की पद्धति को विनियमित करने वाले भर्ती नियमों को तुरंत प्रभाव से विखंडित करते

हैं। उक्त अधिसूचना से पूर्व उक्त नियमों के तहत किसी बात, जो की गई या जिसके किए जाने का लोप किया गया, पर इस विखंडन का कोई प्रभाव नहीं होगा।

[फा. सं. 12018/3/2002-प्रशा. I (खण्ड-II)]

आर. एस. यादव, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 13th January, 2006

G. S. R. 24.—Whereas the posts of Data Entry Operator Grade 'C' and Lower Division Clerk-cum-Cashier in the Cabinet Secretariat (National Authority for Chemical Weapons Convention) have been encadred in the grades of Data Entry Operator Grade 'C' and Lower Division Clerk-cum-Cashier and are now borne in the cadres of the Cabinet Secretariat and the Ministry of Home Affairs respectively.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with

Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the President hereby rescinds the recruitment rules regulating the method of appointment to the above post as published in the Gazette of India dated 24-30 August, 2003, Part-II Section 3, Sub-section (i), vide G. S. R. No. 301, dated the 12th August, 2003 (pages 1903 to 1908) with immediate effect; such rescission shall not effect any thing done or omitted to be done under the said rules before said notification.

[F. No. 12018/3/2002-Ad. I (Vol. II)]

R. S. YADAV, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 25.—यतः, मंत्रिमंडल सचिवालय (राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता) में प्रोग्रामर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 'बी' अनुभाग अधिकारी, सहायक और आशुलिपिक ग्रेड 'सी' के पदों को प्रोग्रामर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 'बी', अनुभाग अधिकारी, सहायक और आशुलिपिक ग्रेड 'सी' के ग्रेडों में संवर्गित कर दिया गया है और ये अब, क्रमशः मंत्रिमंडल सचिवालय एवं गृह मंत्रालय के संवर्गों में शामिल हैं।

2. अतः, अब, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा, सा. का. नि. सं. 151, दिनांक 15 अप्रैल, 2004 (पृष्ठ 849 से 860) द्वारा भारत के राजपत्र, दिनांक 2-8 मई, 2004, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में यथाप्रकाशित, उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति की पद्धति को विनियमित करने वाले भर्ती नियमों को तुरंत प्रभाव से विखंडित करते हैं। उक्त अधिसूचना से पूर्व उक्त नियमों के तहत किसी बात, जो की गई या जिसके किए जाने का लोप किया गया, पर इस विखंडन का कोई प्रभाव नहीं होगा।

[फा. सं. 12018/3/2002-प्रशा. I]

आर. एस. यादव, अवर सचिव

New Delhi, the 13th January, 2006

G. S. R. 25.—Whereas the posts of Programmer, Data Processing Assistant Grade 'B' Section Officer Assistant and Stenographer Grade 'C' in the Cabinet Secretariat (National Authority for Chemical Weapons Convention) have been encadred in the grades of Programmer and Data Processing Assistant Grade 'B', Section Officer, Assistant and Stenographer Grade 'C' and are now borne in the cadres of the Cabinet Secretariat and the Ministry of Home Affairs respectively.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the President hereby rescinds the recruitment rules regulating the method of appointment to the above post

as published in the Gazette of India dated 2-8 May, 2004, Part-II Section 3, Sub-section (i), vide G. S. R. No. 151, dated the 15th April, 2004 (pages 849 to 860) with immediate effect; such rescission shall not effect any thing done or omitted to be done under the said rules before said notification.

[F. No. 12018/3/2002-Ad. I]

R. S. YADAV, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 26.—यतः, मंत्रिमंडल सचिवालय (राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता) में आशुलिपिक ग्रेड 'डी' के पद को आशुलिपिक ग्रेड 'डी' के ग्रेड में संवर्गित कर दिया गया है और ये अब, गृह मंत्रालय के संवर्गों में शामिल हैं।

2. अतः, अब, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा, सा. का. नि. सं. 397, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 (पृष्ठ 2461 से 2464) द्वारा भारत के राजपत्र, दिनांक 9-15 नवम्बर, 2003, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में यथाप्रकाशित, उपर्युक्त पद पर नियुक्ति की पद्धति को विनियमित करने वाले भर्ती नियमों को तुरंत प्रभाव से विखंडित करते हैं। उक्त अधिसूचना से पूर्व उक्त नियमों के तहत किसी बात, जो की गई या जिसके किए जाने का लोप किया गया, पर इस विखंडन का कोई प्रभाव नहीं होगा।

[फा. सं. 12018/3/2002-प्रशा. I (खण्ड-II)]

आर. एस. यादव, अवर सचिव

New Delhi, the 13th January, 2006

G. S. R. 26.—Whereas the post of Stenographer Grade 'D' in the Cabinet Secretariat (National Authority for Chemical Weapons Convention) has been encadred in the grades of Stenographer Grade 'D' and is now borne in the cadre of Ministry of Home Affairs respectively.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the President hereby rescinds the recruitment rules regulating the method of appointment to the above post as published in the Gazette of India dated 9-15 November, 2003, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide G. S. R. No. 397, dated the 30th October, 2003 (pages 2461 to 2464) with immediate effect; such rescission shall not effect any thing done or omitted to be done under the said rules before said notification.

[F. No. 12018/3/2002-Ad. I (Vol. II)]

R. S. YADAV, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 27.—यतः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड) भारत सरकार के दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 382 के साथ इसके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले मांगने के लिए भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उप-धारा (1) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2005 के भारत के राजपत्र के भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में है, द्वारा यथा अपेक्षित भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए कुछ विनियमों के मसौदे प्रकाशित किये गये थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 18 नवम्बर, 2005 को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और जबकि उक्त मसौदे में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से ऐसे मसौदों के संबंध में कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड एतद्वारा भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 4 क के उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाएगा, नामतः—

“मान्यता प्रमाण-पत्र मूल्यांकन समिति द्वारा संयंत्र के दौरे की तारीख से होगा और यह पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा। मान्यता के नवीनीकरण की स्थिति में, यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन विनियमों के अनुसार अपेक्षित शुल्क सहित प्राप्त होता है, तो विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद कंपनी को मान्यता दी जा सकती है तथा प्रमाण-पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जायेगा।”

[फा. सं. 20 (23)/2005-बॉयलर्स]

वी. के. गोयल, सचिव, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

टिप्पणी : मुख्य विनियमों को का. आ. 600 दिनांक 15 सितम्बर, 1950 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा. का. नि. 178, दिनांक 24 मार्च, 1990
2. सा. का. नि. 179, दिनांक 24 मार्च, 1990
3. सा. का. नि. 488, दिनांक 9 अक्टूबर, 1993
4. सा. का. नि. 516, दिनांक 23 अक्टूबर, 1993
5. सा. का. नि. 634, दिनांक 25 दिसम्बर, 1993
6. सा. का. नि. 107, दिनांक 26 फरवरी, 1994 शुद्धिपत्र सा. का. नि. 223, दिनांक 14 मई, 1994
7. सा. का. नि. 250, दिनांक 4 जून, 1994
8. सा. का. नि. 402, दिनांक 13 अगस्त, 1994
9. सा. का. नि. 427, दिनांक 20 अगस्त, 1994
10. सा. का. नि. 562, दिनांक 12 नवम्बर, 1994
11. सा. का. नि. 607, दिनांक 10 दिसम्बर, 1994
12. सा. का. नि. 83, दिनांक 25 फरवरी, 1995;
13. सा. का. नि. 93, दिनांक 4 मार्च, 1995;
14. सा. का. नि. 488, दिनांक 9 नवम्बर, 1996;
15. सा. का. नि. 582, दिनांक 28 दिसम्बर, 1996;
16. सा. का. नि. 59, दिनांक 25 जनवरी, 1997;
17. सा. का. नि. 117, दिनांक 1 मार्च, 1997;
18. सा. का. नि. 172, दिनांक 29 मार्च, 1997;
19. सा. का. नि. 221, दिनांक 21 नवम्बर, 1998;
20. सा. का. नि. 131, दिनांक 1 मई, 1999;
21. सा. का. नि. 139, दिनांक 8 मई, 1999; शुद्धिपत्र सा. का. नि. 201, दिनांक 7 अप्रैल, 2001
22. सा. का. नि. 237, दिनांक 31 जुलाई, 1999;
23. सा. का. नि. 345, दिनांक 23 अक्टूबर, 1999;
24. सा. का. नि. 397, दिनांक 14 अक्टूबर, 2000;
25. सा. का. नि. 219, दिनांक 14 अप्रैल, 2001;
26. सा. का. नि. 496, दिनांक 8 सितम्बर, 2001;
27. सा. का. नि. 672, दिनांक 15 दिसम्बर, 2001;
28. सा. का. नि. 127, दिनांक 13 अप्रैल, 2002;
29. सा. का. नि. 407, दिनांक 22 नवम्बर, 2003;
30. सा. का. नि. 201, दिनांक 19 जून, 2004;
31. सा. का. नि. 203, दिनांक 19 जून, 2004;
32. सा. का. नि. 265, दिनांक 7 अगस्त, 2004;
33. सा. का. नि. 32, दिनांक 29 जनवरी, 2005;
34. सा. का. नि. 66, दिनांक 26 फरवरी, 2005;
35. सा. का. नि. 67, दिनांक 26 फरवरी, 2005;
36. सा. का. नि. 423, दिनांक 24 दिसम्बर, 2005;

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department Of Industrial Policy And Promotion)
CENTRAL BOILERS BOARD

New Delhi, the 31st January, 2006

G. S. R. 27.—Whereas the draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published, as required by Sub-section (1) of Section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), in the Gazette of India, dated the 29th October, 2005, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) (Central Boilers Board), Number G. S. R. 382, dated the 24th October, 2005 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 18th November, 2005;

And whereas no objections or suggestions have been received within the specified period in respect of the amendments contained in this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923, the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 4A, in sub-regulation (4), the following shall be added at the end, namely :—

“The certificate of recognition shall be from the date of the visit of the plant by the Evaluation Committee and shall be for a period of five years. In the case of renewal of the recognition, if the application is received for renewal along with the required fee as per the regulations, the firm may be recognised after following the procedure laid done in the regulations and the certificate shall be issued for a further period of five years.”

[F. No. 20 (23)/2005-Boilers]

V. K. GOEL, Secy. Central Boilers Board

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* S. O. 600, dated the 15th September, 1950 and subsequently amended *vide* notifications—

(i) G. S. R. 178, dated the 24th March, 1990;

(ii) G. S. R. 179, dated the 24th March, 1990;

(iii) G. S. R. 488, dated the 9th October, 1993;

(iv) G. S. R. 516, dated the 23rd October, 1993;

(v) G. S. R. 634, dated the 25th December, 1993;

(vi) G. S. R. 107, dated the 26th February, 1994; Errata
G. S. R. 223, dated the 14th May, 1994;

(vii) G. S. R. 250, dated the 4th June, 1994;

(viii) G. S. R. 402, dated the 13th August, 1994;

(ix) G. S. R. 427, dated the 20th August, 1994;

(x) G. S. R. 562, dated the 12th November, 1994;

(xi) G. S. R. 607, dated the 10th December, 1994;

(xii) G. S. R. 83, dated the 25th February, 1995;

(xiii) G. S. R. 93, dated the 4th March, 1995;

(xiv) G. S. R. 488, dated the 9th November, 1996;

(xv) G. S. R. 582, dated the 28th December, 1996;

(xvi) G. S. R. 59, dated the 25th January, 1997;

(xvii) G. S. R. 117, dated the 1st March, 1997;

(xviii) G. S. R. 172, dated the 29th March, 1997;

(xix) G. S. R. 221, dated the 21st November, 1998;

(xx) G. S. R. 131, dated the 1st May, 1999;

(xxi) G. S. R. 139, dated the 8th May, 1999; Errata
G. S. R. 201, dated 7th April, 2001.

(xxii) G. S. R. 237, dated the 31st July, 1999;

(xxiii) G. S. R. 345, dated the 23rd October, 1999;

(xxiv) G. S. R. 397, dated the 14th October, 2000;

(xxv) G. S. R. 219, dated the 14th April, 2001;

(xxvi) G. S. R. 496, dated the 8th September, 2001;

(xxvii) G. S. R. 672, dated the 15th December, 2001;

(xxviii) G. S. R. 127, dated the 13th April, 2002;

(xxix) G. S. R. 407, dated the 22nd November, 2003;

(xxx) G. S. R. 201, dated the 19th June, 2004;

(xxxi) G. S. R. 203, dated the 19th June, 2004;

(xxxii) G. S. R. 265, dated the 7th August, 2004;

(xxxiii) G. S. R. 32, dated the 29th January, 2005;

(xxxiv) G. S. R. 66, dated the 26th February, 2005;

(xxxv) G. S. R. 67, dated the 26th February, 2005;

(xxxvi) G. S. R. 423, dated the 24th December, 2005;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 28.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (प्रयोगशाला परिचर) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन :— अनुसूची में दर्शित पदधारी को, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व पद पर नियुक्त किया गया था, इन नियमों के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उक्त प्रारंभ से पूर्व उसके द्वारा उस पद पर की गई सेवाएं, परिवीक्षा, पुष्टि, आदि के लिए परिवीक्षा अवधि अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गणना में ली जाएंगी।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
प्रयोगशाला परिचर	1 (एक)* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	2650-65- 3300-70- 4000 रुपए	लागू नहीं होता	नहीं

193 GI/06-2

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	--	---	-------------------------------

7	8	9	10
25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख वह होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 8वां स्तर उत्तीर्ण। वांछनीय : किसी चिकित्सा प्रयोगशाला में एक वर्ष कार्य करने का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
--	---

11	12
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। (ii) जिन्होंने 2610-3540 रुपए के वेतनमान में या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने 2550-3200 रुपए के वेतनमान में या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टी के लिए) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर

लागू नहीं होता।

- | | |
|---|-----------|
| 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर | — अध्यक्ष |
| 2. उप-निदेशक/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर | — सदस्य |
| 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर | — सदस्य |
| 4. उस क्षेत्र में केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी | — सदस्य |

[फा. सं. ए.-12018/50/2000-कुष्ठ/सीसीडी]

वी. के. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर (प्रयोगशाला परिचर) भर्ती नियम, 2006 भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। तथापि, नियम 5 विद्यमान पदधारियों की सेवाओं को नियमित करने की दृष्टि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 को भूतलक्षी प्रभाव देने से विद्यमान पदधारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 31st January, 2006

G.S.R. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.—The incumbent of the post shown in the schedule who was appointed to the post before the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules on regular basis and the services rendered by him in the post before the said commencement shall be taken into account for the purposes of probation period, qualifying service for probation, confirmation etc.

3. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed thereto.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, the Backward classes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Laboratory Attendant	1*(One) 2005 *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Services Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2650-65- 3300-70-4000	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
No	25 years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.) Note : 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep. Note: 2.- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential : (i) 8th Standard Pass from recognized Board or Institute. Desirable : One Year experience of working in a Medical Laboratory.	Not applicable	Two Years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
100 per cent by direct recruitment. Note:— Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government holding :— (a)(i) analogous posts on regular basis; or (ii) post in the pay scale of Rs. 2610-3540 or equivalent with two years regular service in the grade; or (iii) posts in the pay scale of Rs. 2550-3200 or equivalent with four years regular service in the grade, and (b) possessing qualification prescribed in column-8 for direct recruits.	Not applicable
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Composition of Departmental Promotion Committee (for confirmation) Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur —Chairman 2. Deputy Director/Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur —Member 3. Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur —Member 4. A Gazetted Officer from another Central/State Government Office in the area —Member	Not applicable.

[F.No. A-12018/50/2000-Lep/CCD]

V.K. SHARMA, Under Secy.

Note :—The Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2006, takes effect from the date of publication in the Gazette of India. However, rule 5 comes into force from retrospective effect with a view to regularize the services of existing incumbents. It is certified that by giving retrospective effect to rule 5, the interest of existing incumbents are not likely to be adversely affected.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2006

सा. का. नि. 29.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में चौकीदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1435/06-3

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (चौकीदार) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि :**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता :**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **प्रारम्भिक गठन :**—क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को नियमित आधार पर चौकीदार का पद धारण करने वाले व्यक्ति इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उस पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और ऐसे प्रारम्भ से पूर्व उनके द्वारा की गई नियमित सेवा को परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
चौकीदार	7*(सात) (2005) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	2550-55- 2660-60- 3200 रुपए	लागू नहीं होता	नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
7	8	9	10		
25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की	आवश्यक : 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से आठवां स्तर उत्तीर्ण;	लागू नहीं होता	दो वर्ष		

7

8

दशा में 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है

टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण 2—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

वांछनीय : होम गार्ड/सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

लागू नहीं होता

टिप्पण — पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी।

(क) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
(ख) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना (पुष्टि के लिए) —

लागू नहीं होता।

- निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर

—अध्यक्ष

1936/66-4

- | | |
|--|---------|
| 2. उप निदेशक/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर | — सदस्य |
| 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, रायपुर | — सदस्य |
| 4. किसी अन्य केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के क्षेत्र से कोई राजपत्रित अधिकारी | — सदस्य |

[फा. सं. ए-12018/54/2000-कु./सीसीडी]

वी.के. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण — क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान, संस्थान, रायपुर (चौकीदार) भर्ती नियम, 2005 भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। तथापि, विद्यमान पदधारियों की सेवाओं को नियमित करने की दृष्टि से नियम 5 भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा। प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 को भूतलक्षी प्रभाव देने से विद्यमान पदधारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

New Delhi, the 2nd February, 2006

G.S.R. 29.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Watchman in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Watchman) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.— The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial constitution.— Persons holding the post of Watchman in Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the post according to the provisions of these rules and the regular service rendered by them before such commencement shall be counted for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman, other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Watchman	7* (Seven) 2005* Subject to variation depending on workload.	General Central Services, Group 'D' Non-gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not-applicable	No

Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10

25 years (relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.)

Essential :
(i) 8th Standard Pass from Recognized Board.
Desirable : 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteer.

Not applicable

Two years

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.

Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorptions to be made.

11

12

100% by direct recruitment.

Not applicable

Note:—

Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government holding:—

- (a) (i) Analogous posts; and
- (b) Possessing qualification laid down in column 8 for direct recruitments.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Composition of Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

Not applicable

1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur — Chairman
2. Deputy Director/Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur — Member
3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur — Member
4. A Gazetted Officer from another Central/State Government Officer in the area — Member

[F. No. A-12018/54/2000 - Lep/CCD]

V. K. SHARMA, Under Secy.

Note:— The Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Watchman) Recruitment Rules, 2005 takes effect from the date of publication in Gazette of India. However, rule 5 comes into force from retrospective effect with a view to regularize the services of existing incumbents. It is certified that by giving retrospective effect to rule 5, the interest of existing incumbents are not likely to be adversely affected.